



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 श्रावण 1934 (श०)  
(सं० पटना 389) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

8 अगस्त 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-02/2011-खंड/9307—जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-175 दिनांक 02.08.2012 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, आदापुर द्वारा अनियमित ढंग से 1627 व्यक्तियों का नाम बिना साक्ष्यों के परीक्षण के सम्मिलित कर लिया गया है, जो घोर अनियमितता का द्योतक है एवं निर्वाचन कार्य में खुले तौर पर बाधा डालने का कुत्सित प्रयास है। फलतः श्री अजय कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी, आदापुर को सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के कार्य से विमुक्त करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल को आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री मिश्रा को भविष्य में प्राधिकार द्वारा संचालित होने वाले किसी भी निर्वाचन कार्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

आदेश से,  
एन० एस० माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 389-571+100-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>